



HB ESTATE DEVELOPERS LTD.

Regd. Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurugram -122001 (Haryana)
Ph.:0124-4675500, Fax:0124-4370985, E-mail:corporate@hbestate.com
Website : www.hbestate.com, CIN : L99999HR1994PLC034146

Date: February 14, 2026

The Listing Department
BSE Limited,
Pheroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 532334

Sub: Newspaper Publication regarding special window for Re-lodgement of Transfer Request and Dematerialisation of physical shares

Dear Sir / Madam,

In accordance with SEBI circular no. SEBI/HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD.I.3750/2026 dated January 30, 2026, a special window has been opened for re-lodgement of transfer request and dematerialisation of physical securities which were sold/ purchased prior to April 1, 2019, which shall be open for a period of one year from February 5, 2026 to February 4, 2027, applicable for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected/ returned/ not attended due to deficiency of documents/ process/ or otherwise..

Pursuant to the aforesaid, the Company has published the newspaper advertisement detailing the opening of special window in the editions of Business Standard (English & Hindi) on February 14, 2026. Please find enclosed herewith newspaper clippings of the notice.

The copies of the said advertisements are also available on the website of the Company, www.hbestate.com.

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,
For HB Estate Developers Limited

N V K Rao
Company Secretary and Compliance Officer
Mem. No. A35382



Encl. as above

आधार हाउसिंग फ्लानेंस लिमिटेड
(CIN: L66010KA1990PLC011409)
पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, नं. 3, जेम्सी टॉवर, 8वां ए एन रोड, सफ़री रोड, हडसन सर्कल, गंगलूर, बंगलूर - 560027. E-mail: customercare@aadharhousing.com

आम सूचना

आधार हाउसिंग फ्लानेंस लिमिटेड के ग्राहक, आम जनता और जमाकर्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि कंपनी की एक शाखा, जो बल्लारन में 8-84, 210ए एवं 210बी, दूसरी मंजिल, आर्योविक कर्मचारी कालोनी, 8-1, ग्रीन पार्क, जिला-सायबेस्टूर दिल्ली, नई दिल्ली-110016 स्थित को इस सूचना के प्रकाशित होने के 90 दिनों के बाद, अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता एवं प्रशासनिक कारणों से नये कार्यालय परिसर ऑफिस में, 201 एवं 202, सुबेदार मार्ग, प्लॉट नं. 4-249, दूसरी मंजिल, मुनिर्क मेट्रो स्टेशन के पास, रामा मार्केट, मुनिर्क ग्राम, जिला-सायबेस्टूर दिल्ली, नई दिल्ली-110067 पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए या कोई सहायता के लिए आधार हाउसिंग फ्लानेंस लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट <https://aadharhousing.com/#> पर जायें, या नजदीकी शाखा या टोल फ्री नंबर 180030042020 पर संपर्क करें।

8/- प्राथमिक अधिकारी
आधार हाउसिंग फ्लानेंस लिमिटेड
दिनांक: 13-02-2026

tbo.com टीबीओ टेक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ई-78, साउथ एक्सटेंशन पार्ट I, नई दिल्ली-110049, भारत
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट संख्या 728, उद्योग विहार फेज-V, गुरुग्राम-122016 हरियाणा, भारत
सीआईएन: L74999DL2006PLC152323, वेबसाइट: www.tbo.com
ईमेल: corporatesec@tbo.com, फोन नंबर: +91-124-499 8999

पोस्टल बैलेट नोटिस

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 और 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 और 108 के अनुसार और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ-साथ इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र, जिसमें नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 3/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 भी शामिल है (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र") के रूप में संदर्भित), के तहत ई-वोटिंग के माध्यम से सामान्य बैठक के आयोजित करने, पोस्टल बैलेट प्रक्रिया आयोजित करने के लिए निर्धारित आवश्यकताओं को अनुसार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी अनुयायी परिपत्रों सहित परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/PI/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 और सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/POD2/CIR/2015 दिनांक 11 नवंबर 2024 (सामूहिक रूप से "सेबी परिपत्र") के रूप में संदर्भित) के साथ पठित यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के विनियमन 44 (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम"), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सविधायी मानक ("एसएस-2") और किसी भी अन्य लागू कानून, नियम और विनियम (संलग्नक लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुपालन में, कंपनी 11 फरवरी, 2026 के पोस्टल बैलेट नोटिस ("नोटिस") में निर्धारित विशेष व्यवसाय पर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान ("रिपोर्ट ई-वोटिंग") द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करना चाहती है।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, व्याख्यात्मक विवरण के साथ नोटिस दिनांक 13 फरवरी, 2026 को इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल द्वारा केवल उन सदस्यों को जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ पंजीकृत है और जिनके नाम शुक्रवार, 6 फरवरी, 2026 ("कट-ऑफ तिथि") तक सदस्यों के रजिस्ट्रार/नामगोशी स्वामियों की सूची में दर्ज है, भेज दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि कंपनी के सदस्यों को नोटिस या पोस्टल बैलेट फॉर्म की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी जाएंगी और कोई भी भौतिक बैलेट फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी से सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार इसे पंजीकृत करें:

a) भौतिक मॉड्यूल में शेर रखने वाले सदस्य, यदि कोई हों, जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म आईएसआर-1 को विधिवत भरकर और हस्ताक्षरित करके अपने ईमेल पते को सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, गांधीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकानामुडु, हैदराबाद-500032 में जमा करके पंजीकृत/अपडेट करें।

b) डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मॉड्यूल में शेर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे अपने ईमेल खाते प्रबंधित रखते हैं, के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करें।

निदेशक मंडल के आदेश से
टीबीओ टेक लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
नीरा चांडक
दिनांक: 13 फरवरी, 2026
स्थान: गुरुग्राम

Global Vectra Helicorp Limited

Corporate Office : Hangar No. C-He/Hf, Airports Authority of India, Civil Aerodrome, Juhu, Mumbai 400 056.
Registered Office : A - 54, Kailash Colony, New Delhi 110 048.
CIN: L62200DL1998PLC093225 Website: www.globalhelicorp.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2025

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Nine Months Ended		Previous Year Ended
		31 December 2025	30 September 2025	31 December 2024	31 December 2025	31 December 2024	31 March 2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	14,838.71	13,189.33	14,445.28	41,149.34	42,078.30	59,366.69
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and prior period items)	(1,619.93)	(804.42)	(378.94)	(3,719.34)	(1,730.62)	323.88
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and prior period items)	(1,619.93)	(804.42)	(378.94)	(3,719.34)	(1,730.62)	323.88
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and prior period items)	(1,111.38)	(616.18)	(299.79)	(2,670.12)	(1,327.96)	(65.03)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1,009.74)	(722.72)	(480.00)	(2,665.41)	(1,449.41)	(54.51)
6	Equity Share Capital	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
7	Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing operations)	(7.94)	(4.40)	(2.14)	(19.07)	(9.49)	(0.46)
	Diluted :	(7.94)	(4.40)	(2.14)	(19.07)	(9.49)	(0.46)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Bombay Stock Exchange website <http://www.bseindia.com> and National Stock Exchange website <http://www.nseindia.com> and the company website <http://www.globaehelicorp.com>
- The Government of India has notified four new Labour Codes ("New Labour Codes") effective November 21, 2025, thereby consolidating 29 existing labour laws into a unified framework. The Company has estimated that the incremental obligation arising out of the implementation of the New Labour Codes, on the basis of the best information available, consistent with the guidance provided by the Institute of Chartered Accountants of India, is not material and the same has been included under Employee Benefits Expense in the Financial Results. The Company continues to monitor the finalisation of Central / State Rules and clarifications from the Government on other aspects of the Labour Codes and will give appropriate accounting effect, if any, on the basis of such developments as required.
- The Company is engaged in providing helicopter services in India, which is considered as one reportable segment. There are no separate reportable segments as per Ind AS 108 Operating Segments.
- The Company does not have any subsidiary/associate/joint venture company(ies), as on December 31, 2025 and therefore the Consolidation of the Financial Results is not applicable.

for Global Vectra Helicorp Limited
SD
Lt. Gen.(Retd.) SJS Saighal
Chairman

Place:- Mumbai
Date:- February 13, 2026

एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड
CIN: L65929HR1985PLC033936
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशालीन इस्टिडियुशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
फोन : +91-124-4675500, फैक्स नं. : +91-124-4370985
ई-मेल: corporate@hbsstockholdings.com, वेबसाइट: www.hbsstockholdings.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध पुनः प्रस्तुत करने के लिए स्पेशल विडो

सेबी के सर्कुलर नंबर HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 दिनांकित 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड (कम्पनी) के शेयरहोल्डर्स को सूचित किया जाता है कि शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध पुनः प्रस्तुत करने के लिए 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक स्पेशल विडो खोली गई है, जो विशेष रूप से उन अनुरोधों के लिए है जो 01 अप्रैल, 2019 की समयसीमा से पहले प्रस्तुत किए गए थे। मूल शेयर हस्तांतरण अनुरोध जो दस्तावेजों में कमियों के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए/बिचारित नहीं किए गए थे या किसी और वजह से प्रोसेस नहीं किए गए थे।

पात्र शेयरहोल्डर अपना हस्तांतरण अनुरोध आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समयवधि के अंदर कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को उनके कार्यालय के पते बी-25/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 2, नई दिल्ली, भारत, 110020, फोन: 011-35020465, 66 पर प्रस्तुत कर सकते हैं या investor.services@rcmcdelhi.com पर ईमेल भेज सकते हैं।

यदि कम्पनी/आरटीए द्वारा सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो शेयर हस्तांतरण केवल डिपॉजिटरी/आरटीए रूप में प्रोसेस किया जाएगा और कंपनी/आरटीए द्वारा पंजीकरण की तिथि से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन रहेगा और उक्त वर्णित लॉक-इन-पीरियड के दौरान इसे हस्तांतरित/मार्बड/बंध नहीं रखा जाएगा। इसलिए, हस्तांतरितों के पास एक डिमैट खाता होना चाहिए और कंपनी/आरटीए के पास हस्तांतरण अनुरोध प्रस्तुत करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी क्लॉइड मास्टर लिस्ट (सीएमएल) की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी।

कृते एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता./-
पूजा जैन
तिथि : फरवरी 13, 2026 (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
स्थान : गुरुग्राम M. No: F11719

एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड
CIN: L99999HR1994PLC034146
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशालीन इस्टिडियुशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
फोन : +91-124-4675500, फैक्स नं. : +91-124-4370985
ई-मेल: corporate@hbestate.com, वेबसाइट: www.hbestate.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध पुनः प्रस्तुत करने के लिए स्पेशल विडो

सेबी के सर्कुलर नंबर HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 दिनांकित 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड (कम्पनी) के शेयरहोल्डर्स को सूचित किया जाता है कि शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध पुनः प्रस्तुत करने के लिए 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक स्पेशल विडो खोली गई है, जो विशेष रूप से उन अनुरोधों के लिए है जो 01 अप्रैल, 2019 की समयसीमा से पहले प्रस्तुत किए गए थे। मूल शेयर हस्तांतरण अनुरोध जो दस्तावेजों में कमियों के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए/बिचारित नहीं किए गए थे या किसी और वजह से प्रोसेस नहीं किए गए थे।

पात्र शेयरहोल्डर अपना हस्तांतरण अनुरोध आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समयवधि के अंदर कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को उनके कार्यालय के पते बी-25/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 2, नई दिल्ली, भारत, 110020, फोन: 011-35020465, 66 पर प्रस्तुत कर सकते हैं या investor.services@rcmcdelhi.com पर ईमेल भेज सकते हैं।

यदि कम्पनी/आरटीए द्वारा सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो शेयर हस्तांतरण केवल डिपॉजिटरी/आरटीए रूप में प्रोसेस किया जाएगा और कंपनी/आरटीए द्वारा पंजीकरण की तिथि से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन रहेगा और उक्त वर्णित लॉक-इन-पीरियड के दौरान इसे हस्तांतरित/मार्बड/बंध नहीं रखा जाएगा। इसलिए, हस्तांतरितों के पास एक डिमैट खाता होना चाहिए और कंपनी/आरटीए के पास हस्तांतरण अनुरोध प्रस्तुत करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी क्लॉइड मास्टर लिस्ट (सीएमएल) की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी।

कृते एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड
हस्ता./-
पूजा जैन
तिथि : फरवरी 13, 2026 (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
स्थान : गुरुग्राम M. No: A35382

पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड
सीआईएन : L74899DL1995PLC073281
पंजीकृत कार्यालय : 54, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020
कॉर्पोरेट कार्यालय : बी-206ए, सैक्टर-81, फेज-II, नोएडा-201305, उत्तर प्रदेश
फोन : +91-120-4093901
वेबसाइट : www.ppapco.in, ई-मेल आईडी : investorservice@ppapco.com

पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियों तथा संयुक्त उद्यमों के 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के समेकित वित्तीय परिणामों का संक्षेप सार भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एसएस) के अनुसार तैयार किए गए

(ईपीएस डाटा को छोड़कर रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त नौ माह	समाप्त वर्ष
		31-दिस-2025	31-दिस-2025	31-मार्च-2025
		अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित
1	संचालन से राजस्व	13,888.33	39,247.00	55,400.55
2	कर पूर्व की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) और असाधारण मर्दे	2.94	(298.86)	886.39
3	कर पूर्व की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मर्दों के बाद)	2.94	(298.86)	886.39
4	शुद्ध लाभ/(हानि) अवधि के लिए (कर के बाद और असाधारण मर्दे)	6.61	(225.08)	699.71
5	कुल व्यापक आय/(हानि) अवधि के लिए [शामिल लाभ/(हानि) अवधि के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(58.19)	(195.22)	731.87
6	लाभ देय : (क) कंपनी के मालिक (ख) अनियंत्रित ब्याज	6.61	(225.08)	699.71
7	सुकटा इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)	1,411.51	1,411.51	1,408.65
8	प्रति शेयर आय (रु. 10/- प्रत्येक) (क) मूल (रु.) (ख) तरल (रु.)	0.05	(1.59)	4.97
		0.05	(1.59)	4.95

टिप्पणी :
1) पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड के वित्तीय परिणामों का सारांश (स्टैंडअलोन सूचना) (रु. लाखों में)

विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त नौ माह	समाप्त वर्ष
	31-दिस-2025	31-दिस-2025	31-मार्च-2025
	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित
संचालन से राजस्व	12,865.33	37,283.31	53,764.17
कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	105.92	310.92	1,877.59
कर के पश्चात् की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	79.13	236.00	1,409.28

2) उपरोक्त प्रस्तुत संक्षेप सार भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों को विस्तृत प्राप्ति में प्रस्तुत तिमाही/वार्षिक परिणामों से संबंधित है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्राप्ति स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.ppapco.in पर उपलब्ध है।

3) उद्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है तथा इसे कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है।

4) उपरोक्त समेकित वित्तीय परिणामों में कंपनी के संयुक्त उद्यम पीपीएपी टोकाई इंडिया रबर प्राइवेट लिमिटेड के परिणाम शामिल हैं, जिसमें कंपनी की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी और पांच सहायक कंपनियां हैं। कंपनी को उसकी सहायक कंपनियों के साथ यहां समूह के रूप में जाना जाता है।

5) समूह मुख्य रूप से ऑटोमोटिव घटकों के निर्माण, वार्षिक इंडेक्सन मॉड्यूल के विकास और बिक्री, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए घटकों के विकास और बिक्री, ऑटोमोटिव सहायक उपकरण के व्यापार, इलेक्ट्रिक वाहनों और मंडारन अनुप्रयोगों के लिए बैटरी पैक के विकास और बिक्री के व्यवसाय में लगा हुआ है। कंपनी इंड एसएस 108 (ऑपरिंग सेमेंट) के अनुसार केवल एक रिपोर्ट योग्य सेमेंट यानी ऑटोमोटिव कंफोर्ट में काम करती है और इसलिए सेमेंट के लिए अलग से किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं है।

6) केंद्र सरकार ने चार नए श्रम संहिताएं अधिसूचित की हैं, जो 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी हैं और विस्तृत नियम जारी होने तक लॉक है। समूह ने प्रारंभिक मूल्यांकन किया है और इस स्तर पर, किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव की आशा नहीं है। हालांकि, वित्तीय विवरणों पर किसी भी संभावित प्रभाव सहित इसके इच्छित निकायों को निर्धारित करने के लिए एक विस्तृत मूल्यांकन अभी चल रहा है। ढूँढिके यह प्रक्रिया अभी भी प्रगत पर है, यदि किसी भी प्रभाव की पहचान की जाती है, तो अगली तिमाही में कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसका हिसाब लगाया जाएगा।

7) टोकाई कोयोग कंपनी लिमिटेड ("टोकाई") और पीपीएपी टोकाई इंडिया रबर प्राइवेट लिमिटेड ("पीटीआई") के साथ निष्पादित 1 जनवरी 2026 से प्रभावी एक निपटान समझौते के अनुसार, कंपनी ने पीटीआई में अपनी पूरी 50 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी 10,000 लाख के नकद मूल्य पर टोकाई को बेचने पर सहमति व्यक्त की है। ढूँढिके लेनदेन रिपोर्टिंग तिथि पर कुछ बिक्री औपचारिकताओं और वामिबव के कानूनी हस्तांतरण के पूरे होने के अंश पर, इलेक्ट्रिक वॉल्टेज रिपोर्टिंग अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में कोई लेखांकन प्रभाव नहीं पहचाना गया है। तदनुसार, पीटीआई में निवेश का हिसाब इक्विटी पद्धति के तहत जारी रहेगा।

8) कंपनी ने 13 फरवरी 2026 को पीटीआई में अपनी पूरी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी टोकाई को हस्तांतरित कर दी है। और तदनुसार, लेनदेन पूरा होने के बाद पीटीआई कंपनी का संयुक्त उद्यम नहीं रह गया है।

कृते पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड
अभिषेक जैन
(सीआई एवं प्रबंध निदेशक)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 फरवरी, 2026

आइए एक साथ बढ़ें

PV Infra Ltd.
PV INFRA LIMITED

Our Company was originally incorporated in the name and style of Twin cities infotech private limited as a Private Limited Company under the Companies Act, 1956 pursuant to a Certificate of Incorporation granted by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad on July 07, 1995. With registered office of the company at 503B, Maheswari chambers, Samajiguda, Hyderabad, Andhra Pradesh, India-500082. The name of our Company was changed to Twin Cities Infotech limited and company gets converted into a public limited company, vide a fresh Certificate of Incorporation dated February 17, 2000 issued by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad. With registered office of the company at 503B, Maheswari chambers, Samajiguda, Hyderabad, Andhra Pradesh, India-500082. The name of our Company was changed to Sambhav Info-Infra Limited, vide a fresh Certificate of Incorporation dated January 17, 2008 issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Chennai and registered office of the company changed to Plot No.5, damodaran street, Near Uma complex and school, kelpaak P.O., Chennai, Tamil Nadu, India-600010. The name of our Company was changed to Sambhav infra (I) Limited vide a fresh Certificate of Incorporation dated November 18, 2009 issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Chennai. With registered office of the company at Plot No.5, damodaran street, Near Uma complex and school, kelpaak P.O., Chennai, Tamil Nadu, India-600010. The name of our Company was changed to Thirthankar Infra Limited vide a fresh Certificate of Incorporation dated August 30, 2010 issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Chennai. With registered office of the company at Plot No.5, damodaran street, Near Uma complex and school, kelpaak P.O., Chennai, Tamil Nadu, India-600010. The name of our Company was changed to PVV Infra Limited vide a fresh Certificate of Incorporation dated October 07, 2014 issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Chennai. With registered office of the company at Plot No.5, damodaran street, Near Uma complex and school, kelpaak P.O., Chennai, Tamil Nadu, India-600010. Thereafter, the registered office of the company was shifted from the State of Tamil Nadu to the State of Andhra Pradesh. There after the new registered address of the company is situated at: Plot no.63, 1st floor, 4th Cross road, Kanakadurga, gazette offices colony, gurunank Colony road, Vijayawada, Krishna, Andhra Pradesh, India- 520008. There after the registered office address changed to Plot No. 42, D.No. 54-28/3-5, Opp: Gurudwara, Behind OBC Bank Gurunank Colony, Krishna, Vijayawada, Andhra Pradesh, India, 520008. For details of changes in Name of our Company and the Registered Office of our Company, please see "General Information" on page 43 of this Letter of Offer

Registered Office: Plot No. 42, D.No. 54-28/3-5, Opp: Gurudwara, Behind OBC Bank Gurunank Colony, Krishna, Vijayawada, Andhra Pradesh, India, 520008
Contact Number: +91 8790814671 Fax: NA Contact Person: Mr Akhilesh Kumar, Company Secretary & Compliance Officer Email: info@pvvinfra.com
Website: www.pvvinfra.com Corporate Identity Number: L70102AP1995PLC111705

OUR PROMOTERS:

- PINNANAMANI ESTATES PRIVATE LIMITED
- VEERAVENKATA SATYANARAYANA PINNANAMANI

THE ISSUE

ISSUE OF UP TO 9,86,64,284 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5.00/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 5.00/- PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UP TO ₹ 49.33 CRORES* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 8 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 7 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FEBRUARY 05, 2026 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 70 OF THIS LETTER OF OFFER

#Assuming full subscription and receipt of all monies with respect to the Rights Equity Shares.

AMOUNT PAYABLE PER RIGHTS EQUITY SHARE*	FACE VALUE (₹)	PREMIUM (₹)	TOTAL (₹)
On Application	1.25	Nil	1.25
On One or more subsequent Call(s) as determined by our Board and, or the Rights Issue Committee at its sole discretion, from time to time	3.75	Nil	3.75
Total	5.00	Nil	5.00

*For further details on Payment Schedule, see "Terms of the Issue" on page 70 of this Letter of Offer.

ATTENTION INVESTORS

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED

DATED : JANUARY 30, 2026

This notice should be read in conjunction with the LOF filed by the Company with the Stock Exchange and submitted to SEBI and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please note the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday, February 13, 2026 and was scheduled to close on Thursday, February 19, 2026, has now been extended from Thursday, February 19, 2026 to Friday, February 20, 2026, by the Board of Directors of the Company in its meeting held on Friday, February 13, 2026 in order to provide an opportunity to the eligible shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Friday, February 20, 2026. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Friday, February 20, 2026.

REVISED ISSUE SCHEDULE

Issue Opening Date	Friday, February 13, 2026
Last Date for On Market Renunciation of Rights Entitlements*	Tuesday, February 17, 2026
Issue Closing Date**	Friday, February 20, 2026
Finalization of Basis of Allotment (on or about)	Monday, February 23, 2026
Date of Allotment (on or about)	Monday, February 23, 2026
Date of credit (on or about)	Tuesday, February 24, 2026
Date of listing (on or about)	Wednesday, February 25, 2026

*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.

**Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms on or before the Issue Closing Date.

This addendum shall be available on the respective websites of the Company at www.pvvinfra.com; and the Registrar to the Issue at www.skylinereta.com; and the Stock Exchange at www.bseindia.com

Accordingly, there is no change in the LOF dated January 30, 2026, and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing date. Change in Issue closing date resultant change in indicative timetable of post issue activities on account of extension of issue closing date.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.

All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For PVV INFRA LIMITED
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
(Akhilesh Kumar)
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Hyderabad
Date: 13.02.2026

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer dated January 30, 2026, with the BSE Limited ("BSE" or "Stock Exchanges") and is submitted to Securities and Exchange Board of India for information and dissemination purpose only. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. www.bseindia.com, Our Company website at www.pvvinfra.com, and the Registrar to the Issue at www.skylinereta.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 27 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

PPAP AUTOMOTIVE PARTS

पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड
सीआईएन : L74899DL1995PLC073281
पंजीकृत कार्यालय : 54, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020
कॉर्पोरेट कार्यालय : बी-206ए, सैक्टर-81, फेज-II, नोएडा-201305, उत्तर प्रदेश
फोन : +91-120-4093901
वेबसाइट : www.ppapco.in, ई-मेल आईडी : investorservice@ppapco.com

पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियों तथा संयुक्त उद्यमों के 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के सम


JKE™
JAYKAY ENTERPRISES LIMITED
 CIN: L55101UP1961PLC001187
 REGISTERED OFFICE: KAMLA TOWER, KANPUR, UP- 208001
 Tel:- +91 512 2371478-81
 E-mail: cs@jaykayenterprises.com | Website: www.jaykayenterprises.com

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

In compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Board of Directors of Jaykay Enterprises Limited (the "Company"), at its meeting held on Friday, February 13, 2026, approved the unaudited financial results (standalone and consolidated) of the Company, as reviewed by the Audit Committee, for the quarter and nine months ended December 31, 2025.

The aforesaid financial results of the Company are available on the website of the Company at www.jaykayenterprises.com and on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

In compliance with Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, we hereby inform that the same can also be accessed by scanning the following Quick Response (QR) code:



For Jaykay Enterprises Limited
 Sd/-
Abhishek Singhania
 Chairman & Managing Director
 DIN: 00087844

Date: February 13, 2026
 Place: New Delhi

NIBE LIMITED
 CIN: L34100PN2005PLC205813
 Registered Office: Plot No. E-2/2, Phase III MIDC Industrial Area, Nanekarwadi CT, Taluka - Khed, Pune, Chakan, Pune, Khed, Maharashtra, India, 410501
 Tele No.: 02135-637999, Email ID: cs@nibelimited.com, Website: www.nibelimited.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

The Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of Nibe Limited along with the Limited Review Reports of the Statutory Auditor of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their Meeting held on February 12, 2026 in accordance with the Regulation 33 read with Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The aforesaid Financial Results along with the Limited Review Reports of the Statutory Auditor thereon are available on the website of Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the website of the Company at www.nibelimited.com. The same can be accessed by scanning the QR code provided below:



Nibe Limited
 Sd/-
Ganesh Ramesh Nibe
 Managing Director
 DIN: 02932622

Place: Pune
 Date: February 12, 2026

Note: The above intimation is in accordance with Regulations 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

KEMP
KEMP & COMPANY LIMITED
 Regd. Office: DGP House, 5th Floor, 88-C, Old Prabhadevi Road, Mumbai - 400 025 CIN: L24239MH1982PLC000047
 TEL: 022 66539000 FAX: 022 66539089
 Email: kemp-investor@kempnco.com WEB: www.kempnco.com

Extract of statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 31st December, 2025


(₹ In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	QUARTER ENDED			NINE MONTHS ENDED		YEAR ENDED
		31/12/2025 Unaudited	30/09/2025 Unaudited	31/12/2024 Unaudited	31/12/2025 Unaudited	31/12/2024 Unaudited	31/03/2025 Audited
1	Total Income from Operations	79.93	70.90	79.10	226.51	241.58	317.62
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(33.75)	(38.75)	(28.58)	(105.05)	(96.08)	(124.20)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(33.75)	(38.75)	(28.58)	(105.05)	(96.08)	(124.20)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(67.29)	(27.95)	(21.53)	(119.94)	(72.85)	(110.00)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(690.37)	(173.42)	(1,600.91)	3,224.90	(872.84)	(8,115.78)
6	Equity Share Capital	108.02	108.20	108.02	108.02	108.02	108.02
7	Reserves excluding revaluation reserve as at balance sheet:	-	-	-	-	-	12,845.88
8	Basic / Diluted Earning per share	(6.23)	(2.59)	(1.99)	(11.10)	(6.74)	(10.18)

NOTES:

- The above is an extract of detailed format of Quarterly financials Results filed with BSE Ltd under regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of said quarterly financials results are available on the exchange website www.bseindia.com and on the company's website www.kempnco.com.
- The Unaudited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2025 have been taken on record by Board of Directors at its meeting held on 13th February, 2026

On behalf of Board of Directors for KEMP & COMPANY LTD.



Place : Mumbai
 Dated : 13th February, 2026

Shalini D. Piramal
 Managing Director
 D.I.No - 01365328

HB ESTATE DEVELOPERS LIMITED
 CIN: L99999HR1994PLC034146
 Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana
 Ph. : + 91-124-4675500, Fax No. : + 91-124-4370985
 E-mail : corporate@hbestate.com, Website : www.hbestate.com

Special Window for Re-lodgement of transfer requests of physical Shares

Pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026, shareholders of HB Estate Developers Limited (the Company) are hereby informed that special window has been opened from February 05, 2026 to February 04, 2027 for re-lodgement requests for the transfer of shares and is specially applicable to cases which were lodged prior to deadline of April 01, 2019. The original share transfer requests which were rejected/returned/not attended due to deficiencies in documentation or were not processed due to any other reason.

Eligible shareholders may submit their transfer request along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at **RCMC Share Registry Private Limited** at their office address at B-25/1, Okhla Industrial Area, Phase 2, New Delhi, India, 110020, Tel: 011-35020465,66 or send an email at investor.services@rcmcindia.com within stipulated period.

If all the documents are found to be in order by the Company/RTA, the share transfer shall be processed only in dematerialized form and shall be under lock in for a period of 1 (one) year from the date of registration by the Company / RTA and shall not be transferred /marked/ pledged during the said lock-in-period. Accordingly, the transferee(s) must have a demat account and provide a copy of their Client Master List (CML), along with the requisite documents, at the time of lodging the transfer request with the Company/ RTA.

For HB Estate Developers Limited
 Sd/-
NVK Rao
 Company Secretary and Compliance Officer
 Membership No. A35382

Date : February 13, 2026
 Place : Gurugram

KAUSHALYA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
 Regd. Office: HB - 170, Sector-III, Salt Lake, Kolkata - 700 106, E-mail: info@kaushalya.net, Ph: 033-2334 4148
 CIN: L51216WB1992PLC055629

Extract of Financial Results for the Quarter ended December 31, 2025

(₹ In Lakh, except per share data)

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended 31-12-2025 (Unaudited)	Quarter Ended 30-09-2025 (Unaudited)	Year Ended 31-03-2025 (Audited)	Quarter Ended 31-12-2025 (Unaudited)	Quarter Ended 30-09-2025 (Unaudited)	Year Ended 31-03-2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	78.58	2.52	13.19	78.58	2.52	13.19
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary Items)	46.97	(34.14)	(145.03)	59.58	(21.46)	(103.22)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	46.97	(34.14)	(145.03)	59.58	(21.46)	(103.22)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	34.69	(25.73)	(74.68)	53.49	(25.12)	533.15
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	34.69	(25.73)	(74.68)	53.49	(25.12)	533.15
6	Equity Share Capital	-	-	3,463.06	-	-	3,463.06
7	Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	1,612.15	-	-	4,261.15
8	Earning Per Share (Basic & Diluted) - Face Value of Rs. 1,000/- each	10.02	(7.43)	(21.56)	15.44	(7.25)	153.95

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on Stock Exchanges website (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and Company's website (www.kaushalya.net).
- The above standalone/ consolidated results, reviewed by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors at its meeting held on February 13, 2026.

Place : Kolkata
 Date : February 13, 2026



For and on behalf of the Board
 Sd/-
Mahesh Mehra
 Whole-time Director

Muthoot Mercantile Limited
 CIN: U65921KL1997PLC011260
 Reg. Office : 1st Floor, North Block, "Muthoot Floors", Opp. W & C Hospital, Thycaud, Thiruvananthapuram, 695014

EXTRACTS FROM THE STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND PERIOD ENDED DECEMBER 31ST, 2025

[Pursuant to Regulation 52(8), read with Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			9 Months Ended		Year Ended
		December 31, 2025 (Unaudited)	September 30, 2025 (Unaudited)	December 31, 2024 (Unaudited)	December 31, 2025 (Unaudited)	December 31, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)
1	Total Revenue from operations	6,354.84	5,708.48	4,517.08	17,095.19	11,613.95	16,407.03
2	Net profit for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	1,797.37	1,804.59	1,219.02	4,892.65	2,646.47	3,802.72
3	Net profit for the period (after exceptional and / or extraordinary items)	1,797.37	1,804.59	1,219.02	4,892.65	2,646.47	3,802.72
4	Net profit for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	1,459.30	1,336.15	910.22	3,732.44	1,975.60	2,808.93
5	Total Comprehensive income for the period (comprising profit / loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	1,286.85	1,526.65	930.40	3,692.43	1,918.57	2,747.50
6	Paid up share capital	3,641.87	3,641.87	3,641.87	3,641.87	3,641.87	3,641.87
7	Reserves (excluding Revaluation)	19,279.69	17,992.85	14,742.89	19,279.69	14,742.89	15,587.26
8	Securities Premium Account	-	-	-	-	-	-
9	Net Worth	22,080.88	21,059.09	17,800.30	22,080.88	17,800.30	18,585.45
10	Outstanding Debt	1,06,191.63	94,336.43	68,991.40	1,06,191.63	68,991.40	73,669.19
11	Outstanding Preference shares	-	-	-	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	4.81	4.48	3.88	4.81	3.88	3.96
13	Earnings Per share						
1	Basic	4.01	3.67	2.50	10.25	5.42	7.71
2	Diluted	4.01	3.67	2.50	10.25	5.42	7.71
14	Capital Redemption Reserve	2,280.63	2,280.63	2,280.63	2,280.63	2,280.63	2,280.63
15	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Note:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly unaudited financial results filed with Bombay Stock Exchange (BSE) under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the quarterly financial results is available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and the website of the company (www.muthootmercantile.com).
- For the other items referred in Regulation 52 (4) of the Listing Regulations, the pertinent disclosures have been made on Bombay Stock Exchange and can be accessed on the URL (www.bseindia.com).
- The Standalone Financial Statement for the financial year ended March 31, 2025 may be accessed at <https://muthootenterprises.com/annual-report-24-25>.

For and on behalf of Board of Directors of Muthoot Mercantile Limited
 Sd/-
Richi Mathew, Managing Director
 DIN: 00224336

Date: February 12, 2026
 Place: Thiruvananthapuram

SAVITA OIL TECHNOLOGIES LIMITED
 CIN - L24100MH1961PLC012066
 Registered Office: 66/67, Nariman Bhawan, Nariman Point, Mumbai - 400 021, India. Tel: 91 22 6624 6200 / 6624 6228; E-mail : legal@savita.com; Website : www.savita.com

SAVSOL | TRANSOL

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2025

The Board of Directors of Savita Oil Technologies Limited ("the Company") at its meeting held on 13th February, 2026, has approved the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2025.

The aforementioned financial results are available on Company's website at www.savita.com and can also be accessed by scanning the QR Code given below:



For Savita Oil Technologies Limited
 G. N. Mehra
 Chairman and Managing Director
 (DIN:00296615)

Date: 13th February, 2026
 Place: Mumbai

GFCL GUJARAT FLUORO CHEMICALS LIMITED
 CIN : L24304HP2018PLC011898
 Registered Office : Plot No. 1, Khasra Nos. 264 to 267 Industrial Area, Una, Village Basal - 174303, Himachal Pradesh.
 Telephone : +91 1975297843 Vadodara Office : +91 0265 6198111
 Email id : bvdesai@gfcl.co.in Website : www.gfcl.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given to the Members of Gujarat Fluorochemicals Limited ("the Company") that pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule(s) 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time ("Listing Regulations"), Secretarial Standard issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings ("SS-2") and the relaxations and clarifications issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and other applicable Laws, if any, the Notice of Postal Ballot, seeking consent of the Members on the Ordinary Resolution with respect to revision in terms of remuneration of Dr. Bir Kapoor (DIN: 0177510), Deputy Managing Director of the Company as set out in the said notice has been sent electronically to the Members whose e-mail address is registered with the Company / MUFUG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited), Registrar and Share Transfer Agent (RTA / Depositories) / Depository Participants as on 6th February, 2026 ("Cut-Off Date"). The Company has completed the dispatch of Notice of Postal Ballot along with the Explanatory Statement on Friday, 13th February, 2026.

The Notice of Postal Ballot is available on the website of the Company at www.gfcl.co.in and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

In accordance with the applicable MCA Circulars, the Company is providing the facility to exercise right to vote on the resolutions proposed in the said Notice of Postal Ballot only by electronic means (Remote e-voting).

M/s. TNT & Associates, Company Secretaries, Vadodara has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner. The communication of assent or dissent of the members would take place through remote e-voting process only. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") as the agency to provide e-voting facility. Members may cast their votes during the period mentioned below:

Commencement of e-voting	Saturday, 14 th February, 2026 at 9:00 AM (IST)
End of e-voting	Sunday, 15 th March, 2026 at 5:00 PM (IST)

E-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period.

The manner of voting remotely for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email address is provided in the Notice of Postal Ballot. The manner in which persons who have forgotten the User ID and Password, can obtain / generate the same, has also been provided in the said Notice.

A person whose name is recorded in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on the Cut-off date shall only be eligible for the purpose of e-voting. Voting rights of a member/beneficial owner shall be in proportion to their shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person who becomes a member after the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

The resolutions, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting i.e. **Sunday, 15th March, 2026 at 5:00 PM (IST)**. The results of the e-voting will be announced on or before **Tuesday, 17th March, 2026** to the Stock Exchanges and Depositories and will be displayed on the website of the Company, the Stock Exchanges i.e. BSE, NSE and NSDL.

Members are requested to go through the notes of the Notice of Postal Ballot. In case of any query pertaining to e-voting, please visit help and Frequently Asked Questions (FAQs) section available at NSDL's website : www.evoting.nsdl.com. If you have any queries or issues regarding Postal Ballot & e-Voting from the NSDL e-Voting System, you can write an email to evoting@nsdl.co.in or call at toll free nos. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.

By order of the Board of Directors
For Gujarat Fluorochemicals Limited
 Sd/-
Bhavin Desai
 Company Secretary
 FCS 7952

Place : Vadodara
 Date : 13th February, 2026


INDIA NIPPON ELECTRICALS LIMITED
 Regd. Office : No.11 & 13, Palulios Road, Chennai - 600 002.
 Tel : 044-28460073. Website : www.indianippon.com. E-mail : investors@inel.co.in CIN : L31901TN1984PLC011021

Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter & Nine months ended December 31, 2025

(Rs. In Lacs (Except earnings per share))

S.No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED					
		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended			
		31-Dec-2025	31-Dec-2024	31-Mar-2025	31-Dec-2025	31-Dec-2024	31-Mar-2025			
1.	Total Income from Operations (Net)	27,176	21,467	76,902	84,483	27,176	21,467	76,902	84,483	
2.	Net Profit / (loss) for the period before tax	3,330	2,112	9,592	10,268	3,330	2,120	9,583	10,293	
3.	Net Profit / (loss) for the period after Tax	2,493	1,588	7,143	8,203	2,493	1,596	7,134	8,228	
4.	Total Comprehensive Income / (loss) for the period (Comprising profit/loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income/(loss) after tax	4,206	4,698	11,593	11,590	4,206	4,706	11,584	11,615	
5.	Equity Share Capital	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	
6.	Other Equity	69,957 As on 31-Mar-2025			69,987 As on 31-Mar-2025					
7.	Earnings Per Share (of ₹ 5/- each)- Not annualised - (in Rs.)									
	Basic:	11.02	7.02	31.58	36.26	11.02	7.06	31.54	36.37	
	Diluted:	11.02	7.02	31.58	36.26	11.02	7.06	31.54	36.37	

Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the Stock Exchange Websites: www.bseindia.com/www.nseindia.com and on Company's website: www.indianippon.com. The same can be accessed by scanning the QR code provided below:



For and on behalf of Board of Directors
ARVIND BALAJI
 MANAGING DIRECTOR
 DIN: 00557711

Place : Chennai
 Date : 13th February 2026

REPRO INDIA LIMITED
 CIN: L22200MH1993PLC071431 Reg. Office: 11th Floor, Sun Paradise Business Plaza, B¹ Wing, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, India. Phone: 022-71914000
 CONTENT AGGREGATION • Email: investor@reproindiafd.com • Website: www.reproindiafd.com

Extract of Un-audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2025

(Rs. In Lakhs (Except per share data))

Particulars	Unaudited		Unaudited		Unaudited		Unaudited		Audited	
	Quarter Ended		Quarter Ended		Quarter Ended		Quarter Ended		Year Ended	
	Dec.31, 2025	Sept.30, 2025	Dec.31, 2024	Dec.31, 2025	Dec.31, 2024	Dec.31, 2025	Dec.31, 2024	Dec.31, 2025	Dec.31, 2024	31 March 2025
Total Income	13,141	10,791	12,641	35,693	34,541	47,241				
Net Profit for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary item)	77	(199)	119	(367)	(312)	(152)				
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary item)	77	(2,004)	119	(2,172)	(312)	(152)				
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary item)	75	(2,006)	119	(2,204)	(313)	(206)				
Total Comprehensive Income for the period (com										